

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 607]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 नवम्बर 2018—कार्तिक 22, शक 1940

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2018

फा. क्र. 5008-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के सागर, होशंगाबाद एवं भोपाल जिलों से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश

फा. क्र. 9(क)-चार-2018/सेक्टर म./16198

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2018

विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये  
पत्रों की सूची

स. क्र.	जिले का नाम	पत्र क्र. व दिनांक
1.	सागर	पत्र क्र./1803/निर्वाचन/चु0पर्य0/2018, दिनांक 02.10.2018
2.	होशंगाबाद	पत्र क्र./3303/ई.एस./निर्वा0/2018, दिनांक 31.10.2018
3.	भोपाल	पत्र क्र./4454/भारत निर्वा./2018, दिनांक 02.11.2018

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1803-निर्वाचन-चु.पर्य.-2018

सागर, दिनांक 2 नवम्बर 2018

## विधानसभा निर्वाचन 2018

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बावत प्रस्ताव

जिले का नाम : सागर

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त जाना प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
1	श्री जे०के० सारसर	जिला प्रबंधक	एम०पी० स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो० सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री रत्नेश भदौरिया	वरिष्ठ जिला पंजीयक	कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री नीरज दुबे	प्राध्यापक	शास०कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
4	एम० ए० कुरेशी	सहायक प्रबंधक	म०प्र० ग्रा०स०वि० प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1 सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री पवन कुमार अरमोती	क्षेत्रीय प्रबंधक	एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि०, सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री संजय कुमार जैन	वैज्ञानिक	क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री एस.बी.सिंह	सहायक रसायन	विशेषज्ञ उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री सिद्धार्थ हरीमोहन गणवीर	प्राध्यापक	राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय बण्डा	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
9	डॉ० आर.के. जैन	मुख्य रसायनज्ञ	क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री आशीष कुमार त्रिपाठी	सीनियर सांइटिस्ट	कृषि विज्ञान केन्द्र सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री मंसूर अहमद सिद्दीकी	सहायक प्रबंधक	महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्र. 1 सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री जी०के० सिन्हा	सहायक यंत्री	अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग मंडल सागर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री कृष्ण कुमार नामदेव	वन परिक्षेत्र अधिकारी	दक्षिण वनमण्डल राहतगढ़	कार्यपालक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी
14	श्री राम कुमार वैद्य	वनपाल	दक्षिण वनमण्डल सागर	कार्यपालक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली
15	श्री सी०एल० चौधरी	उपयंत्री	बीना पी०एम०यू० सागर	कार्यपालक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41 सागर

16	श्री कमलेश नायक	सहायक मानचित्रकार	जनपद पंचायत बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 35-बी-11
17	श्री राजकिशोर ओझा	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र.-1 बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 35-बी-11
18	श्री सुरेशचंद्र राठौर	विकासखण्ड तकनीकी	प्रबंधक परियोजना सेवा.आ. बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 35-बी-11
19	श्री कमलेश सैनी	संविदा कर्मी	आई.टी.आई. बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 35-बी-11
20	श्री पवन सिंह	सहा. तकनीकी	प्रबंधक आत्मा परियोजना बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 35-बी-11
21	श्री भरत सिंह	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र.-1 बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 35-बी-11
22	श्री नरेन्द्र कुमार मार्को	राजस्व निरीक्षक	खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
23	श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	नजूल खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
24	श्री जानकी प्रसाद पटेल	राजस्व निरीक्षक	मालथौन	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
25	श्री योगेन्द्र चौधरी	राजस्व निरीक्षक	तहसील खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
26	श्री विजय बहादुर खरे	राजस्व निरीक्षक	तहसील खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
27	श्री दिवेश खटीक	राजस्व निरीक्षक	तहसील मालथौन	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
28	श्री लोकेश जाटव	सहायक तकनीकी	प्रबंधक परियोजना संचालन आत्मा सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
29	श्री रोहित गुप्ता	ई.सी.सी. कौर्डिनेटर	परियोजना महिला बाल विकास मालथौन	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
30	श्री प्रमोद कुमार शाक्यवार	तकनीकी	प्रबंधक परियोजना संचालन आत्मा सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
31	श्री प्रशांत श्रीवास्तव	रसायनज्ञ	लोक स्वा.या.वि. खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
32	श्री रोहित पवैया	युवा समन्वयक	जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
33	श्री कपिल गोस्वामी	सहायक तकनीकी	प्रबंधक परियोजना संचालक आत्मा सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 36-खुरई
34	श्री दीपेश मोघे	तकनीकी प्रबंधक	परियोजना संचालक आत्मा सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी
35	श्री अखिलेश जैन	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 3 सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी
36	श्री जयशवाल नायक	उपयंत्री	जनपद पंचायत जैसीनगर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी
37	श्री राजेन्द्र अहिरवार	तकनीकी विशेषज्ञ	जनपद पंचायत जैसीनगर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी

38	श्री राघवेन्द्र	तकनीकी सहायक	जनपद पंचायत जैसीनगर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी
39	श्री प्रदीप मिश्रा	ब्लॉक समन्वयक एसबीएम	जनपद पंचायत जैसीनगर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी
40	श्री पी के राय	उपयंत्री	कार्यालय जल परीक्षा केन्द्र केसली	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी
41	श्री लखनलाल जावरे	उपयंत्री	ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी
42	श्री मनीष कुमार द्विवेदी	तकनीकी प्रबंधक	परियोजना संचालक आत्मा सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी
43	श्री अंकित दुबे	सहायक अभियंता	म0प्र0 पूर्व विद्युत वितरण कंपनी देवरी	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी
44	श्री छत्रपाल अनुसंगी	उपयंत्री	ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी
45	श्री गोविन्द चौरसिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत देवरी	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी
46	श्री अनिल पाठक	उपयंत्री	जनपद पंचायत रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली
47	श्री आर. के धुबे	उपयंत्री	जनपद पंचायत रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली
48	श्री राजेश कुमार कुशवाहा	उपयंत्री	जनपद पंचायत रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली
49	श्री जय अस्थाना	उपयंत्री	जनपद पंचायत रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली
50	श्री प्रमुदयाल चढ़ार	उपयंत्री	जनपद पंचायत सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली
51	श्री प्रवीण सराफ	उपयंत्री	जनपद पंचायत सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 39-रहली, 41-सागर
52	श्री शांतिलाल ब्रह्मण	जिला प्रबंधक	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 40-नरथावली
53	श्री आशीष वर्मा	लेखाधिकारी	एन.आर.ई.जी.एस. जिला पंचायत सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 40-नरथावली
54	श्री अंकित मेश्राम	सहायक अभियंता	संचा.संघा. म.प्र.पू.वि.वि.क.लि.साम्ब	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 40-नरथावली
55	श्री पंकज श्रीवास्तव	लेखापाल	जिला शिक्षा केन्द्र सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 40-नरथावली
56	श्री राकेश बर्मन	सहायक गुणवत्ता नियंत्रक	म.प्र. वेयर हाऊस कार्यालय सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 40-नरथावली
57	श्री सैफ मालिक खान	लेखापाल	जिला शिक्षा केन्द्र सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 40-नरथावली
58	श्री अमीन खान	उपयंत्री	महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण 2 सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41-सागर

59	श्री गजेन्द्र कुमार अहिरवार	उपयंत्री	महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण 2 सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41 सागर
60	श्री शुभम नायक	उपयंत्री	महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क वि०प्राधि० पीआई सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41 सागर
61	श्री निखिल गुप्ता	सहायक यंत्री	कार्यपालन अभियंता नगर संभाग ग०प्र०पू०क्ष०वि०वि० सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41 सागर
62	श्री मनोज जैन	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41 सागर
63	श्री विक्रम सिंह ठाकुर	उपयंत्री	महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क वि०प्राधि० पीआई सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 41 सागर
64	श्री प्रमोद त्रिपाठी	उपयंत्री	आर.ई.एस. सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा
65	श्री समकित जैन	उपयंत्री	जनपद पंचायत बण्डा	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 42 बण्डा
66	श्री अनिल कुमार माहोरे	उपयंत्री	जनपद पंचायत बण्डा	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा
67	श्री राहुल श्रीवास्तव	उपयंत्री	जनपद पंचायत शाहगढ़	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा
68	श्री विजय कुमार मिश्रा	उपयंत्री	जनपद पंचायत शाहगढ़	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा
69	श्री दीपक अग्रवाल	उपयंत्री	जनपद पंचायत शाहगढ़	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा
70	श्री बाबू लाल शर्मा	वनपाल	उत्तर वनमण्डल सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र 38-देवरी

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

क्र. 3303-ई.एस.-निर्वा.-2018

होशंगाबाद, दिनांक 31 अक्टूबर 2018

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष तौर पर अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक	तहसील सिवनीमालवा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 FST
2	श्री बलभद्र सिसौदिया	राजस्व निरीक्षक	तहसील डोलरिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 FST
3	श्री सुरेश चौहान	राजस्व निरीक्षक	तहसील सिवनीमालवा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 FST
4	श्री तुषार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	तहसील इटारसी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद -137 FST
5	श्री अमन चौहान	राजस्व निरीक्षक	तहसील होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद -137 FST
6	श्री शिवकुमार मंडलोई	राजस्व निरीक्षक	तहसील बाबई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर-138 FST
7	श्री राजेन्द्र डाले	राजस्व निरीक्षक	तहसील इटारसी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर-138 FST
8	श्री प्रीतम सिंह बाबरिया	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर-138 FST
9	श्री राहुल इवने	राजस्व निरीक्षक	तहसील सोहागपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर-138 FST
10	श्री विनीत कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक	तहसील बनखेडी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया -139 FST
11	श्री मनमोदसिंह ठाकुर	पीसीओ	जनपद पंचायत सोहागपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया -139 FST
12	श्री विष्णु कांत कौशल	राजस्व निरीक्षक	तहसील पिपरिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया -139 FST
13	श्री दिनेश प्रधान	राजस्व निरीक्षक	श्री अमिलेख होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद -137 FST
1	श्री डोरीलाल चौधरी	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 SST
2	श्री अनिल पवार	पीसीओ	जनपद पंचायत सिवनीमालवा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 SST
3	श्री अनूप गौर	पीसीओ	जनपद पंचायत सिवनीमालवा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 SST
4	श्री हरिप्रसाद बरेले	पीसीओ	जनपद पंचायत होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद-137 SST
5	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	विविधकारी	जनपद पंचायत होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद-137 SST
6	श्री जयसिंह मीना	पीसीओ	जनपद पंचायत होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद-137 SST
7	श्री गरीब दास चौरे	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर 138 SST
8	श्री एस एस लोधी	कराधान सहायक	कार्यालय वाणिज्य कर इटारसी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर 138 SST
9	श्री प्रकाश नारायण साहू	पीसीओ	सहा. वि. आयुक्त केसला	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर 138 SST
10	श्री महेश शर्मा	पीसीओ	जनपद पंचायत सोहागपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर 138 SST
11	श्री संतोष मांडलिक	एडीईओ	जनपद पंचायत बनखेडी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया 139 SST
12	श्री महेन्द्र चौकसे	कराधान सहायक	कार्यालय वाणिज्य कर इटारसी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया 139 SST
13	श्री रहमान शा परते	उ.वि. अधिकारी	कार्या. सहा. संचा. उद्यान पद्मढी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया 139 SST
14	श्री आशुतोष पटेल	पीसीओ	जनपद पंचायत पिपरिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पिपरिया 139 SST

सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रस्तावित नाम					
क्र.	पूर्व में जारी आदेश द्वारा नियुक्त सेक्टर आफिसर एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम जिनकी डियूटी निरस्त की गई	निरस्त अधिकारी के स्थान पर नियुक्त अधिकारी का नाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग का नाम	जिस क्षेत्र के लिये विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री योहन कटारा, उप वन मंडलाधिकारी सिवनीमालवा	श्री सूर्यप्रताप सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी इटारसी	विकय कर कार्यालय इटारसी	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 136 सिवनीमालवा
2	श्री आर एस अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी तवा संभाग सिवनीमालवा	श्री प्रमोद कुमार खातरकर, अनुविभागीय अधिकारी भिलाडिया वितरण अनुभाग सिवनीमालवा	तवा परियोजना सिवनीमालवा	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 138 सिवनीमालवा
3	श्री के के मिश्रा, कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पंचारखेडा	श्री विनोद कुमार, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय पंचारखेडा	कृषि वैज्ञानिक पंचारखेडा	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 136 सिवनीमालवा
4	श्री डी. के. कसनिक, अपर वनमंडलाधिकारी होशंगाबाद	श्री शिवकुमार अवस्थी, सहायक वन संरक्षक उप वनमंडलाधिकारी होशंगाबाद	वन विभाग होशंगाबाद	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 137 होशंगाबाद
5	श्री लखन सिंह यादव, संभागीय परियोजना यंत्री, लो.नि.वि. होशंगाबाद	श्री संजय पाठक, संभागीय परियोजना यंत्री लो.नि.वि. होशंगाबाद	लोक निर्माण विभाग होशंगाबाद	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 138 सोहागपुर
6	श्री विनोद कुमार, कृषि वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय पंचारखेडा	श्री आस्कर टोप्यो, कृषि वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र पंचारखेडा	कृषि वैज्ञानिक पंचारखेडा	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 138 सोहागपुर

7	श्री सूर्यप्रताप सिंह, सहायक प्रबंधक, महाप्रबंधक म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास होशंगाबाद	श्री जी.टी. नरखेडे, एसडीओ, लो.नि.वि. (रा.रा.) उप संभाग होशंगाबाद	लोक निर्माण विभाग होशंगाबाद	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 139 पिपरिया
8	श्री राजीव रंजन महाप्रबंधक, प्र.म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं. पिपरिया	श्री पी आर नारनवरे, प्र.म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं. पिपरिया	म.प्र. वि. मं. पिपरिया	द्वितीय	विधानसभा क्षेत्र 139 पिपरिया

उपरोक्त तालिका में दर्शित कॉलम नंबर 2 में दर्शित सेक्टर अधिकारियों की डियूटी निरस्त कर कॉलम नंबर 3 में दर्शित अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतएव कॉलम नंबर 3 में दर्शित सेक्टर अधिकारियों एवं एफएसटी, एसएसटी के नियुक्त अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त किये जाने का कष्ट करें।

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. 4454-भारत निर्वा.-2018

भोपाल, दिनांक 1/2 नवम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन-2018 स्थैतिक निगरानी दल में नियुक्त अधिकारियों  
को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव  
जिले का नाम:- भोपाल

स.कं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री डीडीएस चौहान	कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या.वरि.कृषि विकास अधि बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
2	श्री आर.के.जैन	उपयंत्री	कार्या.एसडीओ पीडब्ल्यूडी बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
3	श्री हरेन्द्र प्रतापसिंह	बीएसी	विकास खण्ड स्रोत समन्वयक बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
4	श्री राजेन्द्र भार्गव	कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या.वरि.कृषि विकास अधि बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
5	श्री आर.एस. सोलंकी	उपयंत्री	कार्या.अ.वि.अ.लो.नि.वि. बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
6	श्री हरनाथ सिंह मेहर	बी.ए.सी.	विकास खण्ड स्रोत समन्वयक बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
7	श्री एम.एल.मालवीय	कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या.वरि.कृषि विकास अधि बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
8	श्री डी.के. बरसैया	उपयंत्री	कार्या.लो.नि.वि. बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
9	श्री श्री एस.के. यादव	मण्डी निरीक्षक	कृषि उपज मण्डी भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
10	श्री बालेन्द्र सिंह बी	बी.आर.सी.	विकास खण्ड स्रोत समन्वयक बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
11	श्री विजय प्रकाश निगम	उपयंत्री	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
12	श्री संदीप सक्सेना	उपयंत्री	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
13	श्री हरीश वैद्य	सहा. रजिस्ट्रार	मो. आजाद प्रौ.संस्थान एमएसिटी भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
14	श्री वाय. पी. सिंह	सहा. नियोजन अधि.	संचा. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास सतपुड़ा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
15	श्री सौरव द्विवेदी	उपयंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
16	श्री राकेश कुमार वर्मा	वरि.कृषि वि. अधिकारी	कृषि विभाग गौतम नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए



17	श्री इकबाल अहमद	उपयंत्री	कार्य. यंत्री जल संसाधन वि. वि. /यां इन्द्रपुरी	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
18	श्री अतुल सिंह	सहा. यंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
19	श्री भवानी प्रसाद कुशवाहा	वरि. कृषि.वि. अधिकारी	कृषि विभाग पुराना सचिवालय भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
20	श्री अनिल श्रीवास्तव	उपयंत्री	कृषि उपज मंडी समिति, करौंद	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
21	श्री प्रकाश चन्द्र पवार	उपयंत्री	मु. अभि. लो.नि.वि. नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
22	श्री सीताराम ठाकुर	वरि.कृ. वि.अधिकारी	कृषि विभाग पुराना सचिवालय भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
23	श्री ओमकार सिंह	उपयंत्री	राजधानी परियोजना प्रशासन, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल.	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
24	श्री सिद्धार्थ मिश्र	उपयंत्री	कार्य. यंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना अयोध्या नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
25	श्री रामशिरोमणि श्रीवास्तव	उपयंत्री	संचालनालय मत्स्योद्योग भदभदा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
26	मनोज कुमार बाथम	वरि. कृ.वि.अधिकारी	कृषि विभाग पुराना सचिवालय भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
27	श्री सतीश शाक्या	उपयंत्री	कार्या. सुयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अरेरा कालोनी ई-5	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
28	श्री एस.के. शर्मा	वरि.कृ.वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
29	श्री हीरालाल वर्मा	सहा. सा. अधिकारी	संचालनालय मत्स्योद्योग भदभदा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
30.	श्री सुनील इवने	उपयंत्री	म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
31	श्री गोपाल दास मयूरी	उपयंत्री	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
32	श्री अजय तेकाम	उपयंत्री	मु.तक.परीक्षक 41 प्रशा. परि. अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
33	श्री एस. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री	प्र.अ. जल संसाधन विभाग तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
34	श्री अनिल श्रीवास्तव	कृषि.वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
35	श्री के. पी. यादव	उपयंत्री	कार्य. यंत्री जल संसाधन वि. इन्द्रपुरी	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
36	श्री विकास त्रिवेदी	उपयंत्री	परि. संचालक जल संसाधन कोलार गेस्ट हाउस	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
37	श्री डी.एम. शर्मा	कृषि.वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
38	श्री एस. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री	प्र.अ. जल संसाधन विभाग तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए

39	श्री एम. पी. खरे	उपयंत्री	कार्य. यंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधेसंरचना अयोध्या नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
40	श्री ए.के. सक्सेना	कृषि वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
41	श्री विनय कुमार खैन	उपयंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
42	श्री एम. एस. सौदागर	उपयंत्री	प्र.अ. जल संसाधन विभाग तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
43	एम.के. मिश्रा	कृषि विकास अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
44	श्री पी. के. श्रीवास्तव	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास सतपुड़ा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
45	श्री एन. पी. गोहिया	उपयंत्री	प्र.अ. जल संसाधन विभाग तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
46	श्री जे.पी. कुशवाह	कृषि वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
47	श्री अजय कुमार गायकवाड	उपयंत्री	कार्य. यंत्री जल संसाधन वि. इन्द्रपुरी	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
48	श्री राधेश्याम पालीवाल	उपयंत्री	राजधानी परियोजना प्रशासन, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल.	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
49	श्री जी.एल.वर्मा	कृषि वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
50	श्री आर. एस. चौरसिया	उपयंत्री	प्र.अ. जल संसाधन विभाग तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
51	श्री संजय तिवारी	उपयंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
52	श्री अनिल तिवारी	कृषि वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
53	श्री आर. डी. अहिरवाल	उपयंत्री	मु. अभि. लो.नि.वि. नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
54	श्री जे.पी. मालवीय	कृषि वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
55	श्री गजराज सिंह कुमार नामदेव	उपयंत्री	संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
56	श्री संतोष कुमार नामदेव	उपयंत्री	संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
57	श्री भगवान सिंह भदौरिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री भारी वि.या. मशीनरी संभाग हॉसटल फ्रंट ऑ डैम सेफ्टी लिंक नं. 2 तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
58	श्री पी.के. कापसे	कृषि. वि. अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
59	श्री नीरज चतुर्वेदी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग एम.पी.नगर जोन भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
60	श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर	उपयंत्री	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए

61	कृषि.वि.अधिकारी	कृषि.वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
62	श्री कमलकिशोर गुप्ता	सहा.मत्स्य अधिकारी	संचालनालय मत्स्योद्योग भदभदा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
63	श्री सुनील श्रीवास्तव	उपयंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
64	श्री व्ही.के.शुक्ला	कृषि.वि.अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
65	श्री सतीश कुमार दमोदरन	उपयंत्री	कार्य. यंत्री जल संसाधन सं. एम.पी. नगर जोन	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
66	श्री अजय गुप्ता	उपयंत्री	संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
67	श्री एस.के. यादव	कृषि. वि. अधिकारी	उप संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
68	श्री राजेश श्रीवास्तव	उपयंत्री	सचिव नियंत्रण बोर्ड जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
69	श्री प्रदीप शुक्ला	उपयंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
70	श्री मुन्नालाल गुप्ता	सहा.यंत्री	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
71	श्री के. के. पविया	सहा. नियो. अधिकारी	संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास सतपुड़ा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
72	अशोक कुमार सुरेले	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग एमपीनगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
73	श्री जीवेन्द्र सिंह	सहा. यंत्री	संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
74	श्री नीतिराज सिंह	संयुक्त संचालक	आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्था	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
75	श्री नितिन कुहिकर	सहा.यंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग एम.पी.नगर जोन भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
76	श्री राजेन्द्र प्रसाद महेश्वरी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं जल संसाधन विभाग	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
77	श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी	उपयंत्री	राजधानी परियोजना प्रशासन, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल.	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
78	श्री एस.के.शकरगाये	सहा.यंत्री	कार्या. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
79	श्री मुकेश जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं जल संसाधन विभाग	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
80	श्री देवेन्द्र सिंह	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग एम.पी.नगर जोन भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
81	श्री अभिनव श्रीवास्तव	सहा.यंत्री	कार्यपालन यंत्री बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं जल संसाधन विभाग	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
82	श्री डी. के. जैन	उपयंत्री	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
83	श्री मुकेश गोयल	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग एम.पी.नगर जोन भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए

84	श्री गोपाल दास मयूरी	उपयंत्री	जल मौसम विज्ञान संभाग क्र० १ मो.	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
85	श्री सुनील इवने	उपयंत्री	म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त अयोध्या नगर २-	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
86	श्री भगवान् सिंह भदौरिया	उपयंत्री	वीभरी मशीनरी संभाग .या/प्रोजेक्ट हॉस्टल फ्रंट ऑफ़ डैम सेफ्टी लिंक न 2 तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
87	श्री महफूज अहमद खान	उपयंत्री	बाह्य वित्त पोषित परियोजना भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
88	श्री राकेश चौबे	उपयंत्री	कार्यालय यंत्री म0प्र0 ग्रह निर्माण एवं अधोसंरचना भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए
89	श्री प्रमोद कुमार	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री भण्डार सेवा संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए